



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 329) पटना, बुधवार, 26 अप्रील 2017

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना-800001

अधिसूचना

28 अक्टूबर 2016

सं0 2163—मुजफ्फरपुर नगर में अवस्थित विख्यात गरीब नाथ मंदिर एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसके सुचारु प्रबंधन, उन्नयन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1777 दिनांक-04.07.06 द्वारा अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। इसकी कार्यवधि की समाप्ति के पश्चात् पर्षदीय आदेश पत्रांक-606 दिनांक 07.07.2011 द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु पुनः 05 वर्षों के लिए एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य काल पूरा हो जाने के बाद पर्षदीय आदेश पत्रांक-1102 दिनांक 06.07.16 द्वारा न्यास समिति का कार्य काल तीन माह या नई समिति के गठन तक अर्थात् इनमें से जो पहले हो, तक के लिए विस्तारित किया गया था, जो पूरा हो गया है।

चूँकि पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-1777 दिनांक 04.07.06 द्वारा निरूपित योजना के संचालन हेतु पर्षदीय आदेश पत्रांक-606 दिनांक 07.07.11 द्वारा गठित न्यास समिति का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः उक्त अधिसूचना द्वारा निरूपित योजना के संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक हो गया है। अतः उक्त योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु ग्यारह व्यक्तियों की एक न्यास समिति गठित की जाती है, जिसका कार्यकाल आदेश की तिथि से पाँच वर्षों का होगा। पूर्व अधिसूचित योजना में वर्णित नियम एवं शर्तें पूर्ववत् लागू रहेगी।

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री गुप्तेश्वर पाण्डेय (नामतः)(ए0 डी0 जी0 पी0)(निवर्तमान अध्यक्ष) | — | अध्यक्ष |
| 2. श्री एन0 के0 सिन्हा (निवर्तमान सचिव) | — | सचिव |

- आदेश से,
संजय कुमार,
प्रशासक ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 329-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>